



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 163]
No. 163]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 28, 1981/ वैशाख 8, 1903
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 28, 1981/VAISAKHA 8, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 28 अप्रैल, 1981

सीमा शुल्क

सं० का० वि 313 (अ) .—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, यह निदेश देती है कि इससे संलग्न सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के राजस्व और बैंकिंग विभाग की अधिसूचनाओं में से प्रत्येक का उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट रीति से, यथास्थिति, संशोधन या और संशोधन किया जाएगा।

सारणी

क्रम सं०	अधिसूचना सं०	संशोधन
	और तारीख	
(1)	(2)	(3)

1. 77. सीमाशुल्क तारीख 18 जून, 1977 उक्त अधिसूचना में "शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (1) के अंतर्गत सम्मिलित माल को" शब्दा, अको और कोष्ठक के स्थान पर "शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष (1) के अंतर्गत आने वाले माल को

1	2	3
		(जो शीर्ष सं० 73.06/07 के उपशीर्ष सं० (1) और शीर्ष सं० 73.10 में वर्णित रूपों में मिश्रधातु वाले हस्तात (स्टेनलेस हस्तात को छोड़कर) और अधिक कार्बन वाले हस्तात से, जिसमें खोखले खनन बर्म वाला हस्तात सम्मिलित नहीं है, निम्न है)" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जाएंगे।
2. 89 सीमाशुल्क तारीख 18 जून, 1977	उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में,—	(1) क्रम सं० 1 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा। (ii) क्रम सं० 4 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं० और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—
	(1)	(2) (3)

"4. केन्द्रीय उत्पादशुल्क और नमक 165 अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की पहली अनुसूची की मद सं० 28 के के की उप मद (i) और (ik) के

1	2	3
	अंतर्गत आने वाले सभी माल जो निम्नलिखित से भिन्न हैं, अर्थात् :—	
(क)	लोहे या इस्पात या अधिक कार्बन वाले इस्पात या या मिश्रधातु वाले इस्पात की (जिसमें स्टेनलेस इस्पात सम्मिलित नहीं हैं) पडल की हुई शलाकाएं, पाइलिंग ब्लाक, लम्प और ऐसे ही आकार, ब्लूम, बिलेट पासे और पत्तर की शलाकाएं (जिनके अंतर्गत टिनप्लेसट की शलाकाएं भी हैं)	
(ख)	लोहे या इस्पात या अधिक कार्बन वाले इस्पात या मिश्रधातु वाले इस्पात की (जिसमें स्टेनलेस इस्पात सम्मिलित नहीं हैं) शलाकाएं और छड़ें (जिनके अंतर्गत तार की छड़ें भी हैं) जो नष्ट बेखिल, गड़ी हुई, बहिर्बधित शीत प्ररूपित या शीत परिरूपित जिसके अंतर्गत परिशुद्धता पूर्वक बनाई गई भी हैं) हैं।	
3.	107-सीमाशुल्क उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध सारणी में, क्रम तारीख 1 जुलाई, 1977 सं० 4 और 7 तथा जमसे संबंधित प्रविष्टियों का खोप किया जाएगा।	

[सं० 116-फा० सं० एम्-17/81-टी०आर०यू(सी०सु०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th April, 1981

CUSTOMS

G.S.R. 313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby directs that each of the notifications of the Government of India in the Department of Revenue and Banking specified in column (2) of the Table hereto annexed shall be amended or further amended, as the case may be, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table.

TABLE

Sl. Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)
(3)	
1. 77-Customs, dated the 18th June, 1977	In the said notification for the words, brackets and figures "goods falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15", the words, brackets and figures "goods, falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 [other than alloy steel (excluding stainless steel) and high carbon steel in the forms mentioned in sub-heading No. (1) of Heading No. 73.06/07 and Heading No. 73.10 (excluding hollow mining drill steel)] shall be substituted.
2. 89-Customs, dated the 18th June 1977	In the Table annexed to the said notification — (i) Sl. Nos. 1 and 3 and the entries relating thereto, shall be omitted; (ii) for Sl. No. 4 and the entries relating thereto, the following Sl. No. and entries shall be substituted, namely :
(1)	(2)
(3)	
"4 All goods falling under sub-items (i) and (in) of Item No 26AA of the First Schedule to the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) other than the following, namely :	165
(a) puddled bars, pilings, blocks, lumps and similar forms, blooms, billets, slabs and sheet bars (including tin plate bars), of iron or steel or high carbon steel or alloy steel (excluding stainless steel);	
(b) bars and rods (including wire rods), of iron or steel or high carbon steel or alloy steel (excluding stainless steel,) hot rolled forged, extruded, cold formed or cold finished (including precision made)".	

(1)	(2)	(3)
3. 107-Customs, dated the 1st July, 1977	In the Table annexed to the said notification, Sl. Nos. 4 and 7 and the entries relating thereto, shall be omitted.	

[No. 116/F.No.S-17/81-TRU (Cus)].

सांकांनि 314(अ) —केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 75.06/07 के उपशीर्ष सं० (1) और शीर्ष सं० 73.10 में वर्णित रूपों के और पूर्वोक्त पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.15 के उपशीर्ष सं० (1) के अंतर्गत आने वाले मिश्रधातु वाले इस्पात (जिसमें स्टेनलेस इस्पात सम्मिलित नहीं है) और अधिक कार्बन वाले इस्पात को उन पर उद्ग्रहणीय उस सीमाशुल्क के जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जिनका मूल्य के 45 प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 117-फा० सं० एम-17/81-टी०आर०यू० (सी०शु०)]

G.S.R. 314(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts alloy steel (excluding stainless steel) and high carbon steel in the forms mentioned in sub-heading No. (1) of Heading No. 73.06/

07 and Heading No. 73.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) and falling under sub-heading No. (1) of Heading No. 73.15 of the said First Schedule from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule, as is in excess of forty-five per cent ad valorem.

[No. 117/F. No. S-17/81-TRU (Cus)]

सांकांनि 315(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अपना यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की पहली अनुसूची के शीर्ष सं० 73.10 के अंतर्गत आने वाले खोखले खनन बर्से वाले इस्पात को उस पर उद्ग्रहणीय उस सीमाशुल्क के, जो उक्त पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, उतने भाग से, जो मूल्य के 30 प्रतिशत से अधिक है, छूट देती है।

[सं० 118/फा० सं० एम-17/81-टी०आर०यू० (सी०शु०)]

र०कु० चक्रवर्ती, उप सचिव

G.S.R. 315(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts hollow mining drill steel, falling under Heading No. 73.10 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon which is specified in the said First Schedule as is in excess of thirty per cent ad valorem.

[No. 118/F. No. S-17/81-TRU(Cus)]

R. K. CHAKRABARTI, Dy. Secy.

